



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1131]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2016/वैशाख 21, 1938

No. 1131]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2016/ VAISAKHA 21, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 1700 (अ).- यतः, मै. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (इंदोर) लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य के अकोलिआ गांव, बरदारी, काली-बिलौड जमौदी, खेडा, जिला इंदोर में बहु-उत्पाद क्षेत्र के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1981(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2006 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 1113.722 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (इंदोर) लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 169.577 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 17 नवंबर, 2015 एवं 9 मार्च, 2015 के पत्र सं. इफ 11-39/2014/बी-ग्यारह के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, इंदोर विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 169.577 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **169.577 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **944.145 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्र.सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	खेडा	139	0.428
2.		140	0.460
3.		141	0.282
4.		142	0.888
5.		143/1	0.627
6.		143/2	0.637
7.		143/3/1	0.209
8.		143/3/2	0.209
9.		143/3/3	0.209
10.		143/4	0.637
11.		144	1.327
12.		147	0.596
13.		148	0.972
14.		149	0.857
15.		150	1.923
16.		151	0.408
17.		152/1	0.541
18.		152/2	0.420
19.		153	0.240
20.		154	0.314
21.		155	2.989
22.		156	0.514
23.		157	0.129
24.		158/1	0.136
25.		158/2	0.904
26.		158/3	0.768
27.		159	0.010
28.		160	0.439
29.		161	1.066
30.		162	0.324
31.		163	0.188
32.		805	1.693
33.		806	1.170
34.		807	0.523
35.		808	0.637
36.		809	1.808
37.		810	0.376

38.		811	0.689
39.		812	0.564
40.		813	1.620
41.		815	1.682
42.		816/1	0.383
43.		816/2	0.384
44.		833	0.230
45.		834	0.302
46.		835	2.790
47.		837	0.356
48.		838/1	0.401
49.		838/2	0.801
50.		839	0.115
51.		840	0.637
52.		841	0.523
53.		842/1	0.271
54.		842/2	0.272
55.		843	0.533
56.		844	0.470
57.		845	1.170
58.		846	0.449
59.		847	0.919
60.		848	0.742
61.		849	0.240
62.		850	0.178
63.		852	1.275
64.		853/1	0.246
65.		853/2	0.245
66.		854	0.168
67.		855	0.408
68.		856	0.073
69.		857	0.272
70.		858	2.843
71.		859	0.295
72.		860	2.811
73.		862	2.466
74.		863	0.439
75.		864	0.523
76.		865	0.188
77.		867	1.254

78.		868	0.209
79.		869	0.533
80.		870/1	0.175
81.		870/2	0.139
82.		871	0.794
83.		872	0.794
84.		873	0.136
85.		874	0.360
86.		875	0.617
87.		876	2.665
88.		877	2.665
89.		878	1.777
90.		879	1.317
91.		880/1	0.704
92.		880/2	0.704
93.		880/3	0.703
94.		881	0.501
95.		882	1.129
96.		883	0.240
97.		884	2.414
98.		887	3.532
99.		888	0.836
100.		890	0.261
101.		891	0.941
102.		892/1	0.498
103.		892/2	0.495
104.		893	2.028
105.		894	0.857
106.		895/1/1	0.554
107.		895/1/2	0.784
108.		895/2	1.358
109.		895/3	1.453
110.		896	2.738
111.		897/1	0.543
112.		897/2	0.543
113.		899/1	0.319
114.		899/2	0.319
115.		899/3	0.319
116.		899/4	0.318
117.		900	0.399

118.		901	0.282
119.		905	0.544
120.		902	0.337
121.		906/1	0.262
122.		906/2	0.261
123.		907/1	1.040
124.		907/2	1.040
125.		908/1	0.172
126.		908/2	0.173
127.		909	0.335
128.		910	0.669
129.		911	0.230
130.		912	1.285
131.		916	4.212
132.		917/2	0.376
133.		918	0.157
134.		919/1	0.291
135.		919/2	0.179
136.		200 पार्ट	1.000
137.		200	1.099
138.		201 पार्ट	1.378
139.		915	0.648
140.		822	0.658
141.		823	1.860
142.		824	0.732
143.		826	0.884
144.		828	0.230
145.		829	0.470
146.		830	0.418
147.		836	0.178
148.		814	0.031
149.		861	0.042
150.		885	4.285
151.		886	0.711
152.		898	0.303
153.		913	0.031
154.		914	1.389
155.		144	1.625
156.	बरदारी, जिला धार	343	2.414
157.		344	0.606

158.		345	0.617
159.		346	1.108
160.		350	1.129
161.		351	0.533
162.		352/1	0.125
163.		352/2/1	0.125
164.		352/2/2	0.125
165.		352/3	0.125
166.		352/4	0.125
167.		353	0.314
168.		354	0.366
169.		355	1.254
170.		356	1.777
171.		359	0.251
172.		360	0.711
173.		361/1	0.251
174.		361/2	0.157
175.		362	0.366
176.		363	0.512
177.		364	0.439
178.		357	0.242
179.		366/2	0.209
180.		367	0.512
181.		369	0.073
182.		370	0.439
183.		372	0.366
184.		374	0.178
185.		375	0.167
186.		347	1.145
187.		348	0.334
188.		349	0.293
189.		357	0.157
190.		365	0.881
191.		380	0.125
192.		396	0.679
193.		358	0.240
194.		368/1	0.105
195.		368/2	0.020
196.		366/1	0.209
197.		371	0.534

198.		373	0.125
199.	बरदारी	42 पार्ट	0.423
200.		43	0.115
201.		44	0.115
202.		41 पार्ट	0.381
203.		40 पार्ट	0.859
204.		45 पार्ट	0.812
205.		46 पार्ट	0.648
206.		51/2	0.091
207.		51/3	0.564
208.		50 पार्ट	0.055
209.		49 पार्ट	0.229
210.		16/2	0.292
211.		39 पार्ट	0.050
212.		33 पार्ट	0.410
213.		31 पार्ट	0.191
214.		25 पार्ट	0.835
215.		23	0.619
216.		24 /1/1	0.120
217.		24/1/2 पार्ट	0.069
218.		24/2	0.241
219.		24/3	0.240
220.		24/4	0.240
221.		27 पार्ट	1.312
222.		28 पार्ट	0.291
223.		68 पार्ट	0.837
224.		69 पार्ट	0.096
225.		83 पार्ट	0.986
226.		82 पार्ट	0.168
227.		81 पार्ट	0.130
228.		80/2	0.209
229.		84	0.272
230.		86	0.282
231.		87	0.366
232.		88	0.575
233.		89	0.240
234.		90	0.219
235.		91/1	0.164
236.		91/2	0.150
237.		92	0.031

238.		93/1	0.507
239.		93/2	0.507
240.		94	0.993
241.		95/1	0.554
242.		95/2	0.554
243.		96	1.285
244.		97	0.042
245.		98	0.678
246.		99	0.324
247.		100	0.230
248.		101	0.502
249.		102	1.024
250.		103	0.346
251.		104	0.376
252.	कुल		169.577
253.	उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		944.145

[फा. सं. एफ. 2 (6)/1/2000-ई.पी.जेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O.1700(E).- Whereas, M/s. Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas (Indore) Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up Multi Product Special Economic Zone at Village- Akolia, Bardari, Kali-Billoid, Jamodi, Kehda, District-Indore, in the State of Madhya Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1113.72 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O.1981 (E) dated 16th November, 2006;

And, whereas, M/s. Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas (Indore) Limited has now proposed for full de-notification of 169.577 hectares area at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Madhya Pradesh has given its "No Objection" to the proposal vide their letter No. F.11-39/2014/B-XI dated 17th November, 2015 and 09th March, 2015;

And, whereas, the Development Commissioner, Indore Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of of 169.577 ha of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area 169.577 hectares**, thereby making resultant area as **944.145 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey Numbers	Area to de.notified (in hectares)
1.	Kheda	139	0.428
2.		140	0.460
3.		141	0.282
4.		142	0.888
5.		143/1	0.627
6.		143/2	0.637
7.		143/3/1	0.209
8.		143/3/2	0.209
9.		143/3/3	0.209
10.		143/4	0.637
11.		144	1.327
12.		147	0.596
13.		148	0.972
14.		149	0.857
15.		150	1.923
16.		151	0.408
17.		152/1	0.541
18.		152/2	0.420
19.		153	0.240
20.		154	0.314
21.		155	2.989
22.		156	0.514
23.		157	0.129
24.		158/1	0.136
25.		158/2	0.904
26.		158/3	0.768
27.		159	0.010
28.		160	0.439
29.		161	1.066
30.		162	0.324
31.		163	0.188
32.		805	1.693
33.		806	1.170
34.		807	0.523
35.		808	0.637
36.		809	1.808
37.		810	0.376
38.		811	0.689
39.		812	0.564
40.		813	1.620
41.		815	1.682
42.		816/1	0.383
43.		816/2	0.384
44.		833	0.230
45.		834	0.302
46.		835	2.790

47.		837	0.356
48.		838/1	0.401
49.		838/2	0.801
50.		839	0.115
51.		840	0.637
52.		841	0.523
53.		842/1	0.271
54.		842/2	0.272
55.		843	0.533
56.		844	0.470
57.		845	1.170
58.		846	0.449
59.		847	0.919
60.		848	0.742
61.		849	0.240
62.		850	0.178
63.		852	1.275
64.		853/1	0.246
65.		853/2	0.245
66.		854	0.168
67.		855	0.408
68.		856	0.073
69.		857	0.272
70.		858	2.843
71.		859	0.295
72.		860	2.811
73.		862	2.466
74.		863	0.439
75.		864	0.523
76.		865	0.188
77.		867	1.254
78.		868	0.209
79.		869	0.533
80.		870/1	0.175
81.		870/2	0.139
82.		871	0.794
83.		872	0.794
84.		873	0.136
85.		874	0.360
86.		875	0.617
87.		876	2.665
88.		877	2.665
89.		878	1.777
90.		879	1.317
91.		880/1	0.704
92.		880/2	0.704
93.		880/3	0.703
94.		881	0.501
95.		882	1.129
96.		883	0.240

97.		884	2.414
98.		887	3.532
99.		888	0.836
100.		890	0.261
101.		891	0.941
102.		892/1	0.498
103.		892/2	0.495
104.		893	2.028
105.		894	0.857
106.		895/1/1	0.554
107.		895/1/2	0.784
108.		895/2	1.358
109.		895/3	1.453
110.		896	2.738
111.		897/1	0.543
112.		897/2	0.543
113.		899/1	0.319
114.		899/2	0.319
115.		899/3	0.319
116.		899/4	0.318
117.		900	0.399
118.		901	0.282
119.		905	0.544
120.		902	0.337
121.		906/1	0.262
122.		906/2	0.261
123.		907/1	1.040
124.		907/2	1.040
125.		908/1	0.172
126.		908/2	0.173
127.		909	0.335
128.		910	0.669
129.		911	0.230
130.		912	1.285
131.		916	4.212
132.		917/2	0.376
133.		918	0.157
134.		919/1	0.291
135.		919/2	0.179
136.		200 part	1.000
137.		200	1.099
138.		201 part	1.378
139.		915	0.648
140.		822	0.658
141.		823	1.860
142.		824	0.732
143.		826	0.884
144.		828	0.230
145.		829	0.470
146.		830	0.418

147.		836	0.178
148.		814	0.031
149.		861	0.042
150.		885	4.285
151.		886	0.711
152.		898	0.303
153.		913	0.031
154.		914	1.389
155.		144	1.625
156.	Bardari, Distt. Dhar	343	2.414
157.		344	0.606
158.		345	0.617
159.		346	1.108
160.		350	1.129
161.		351	0.533
162.		352/1	0.125
163.		352/2/1	0.125
164.		352/2/2	0.125
165.		352/3	0.125
166.		352/4	0.125
167.		353	0.314
168.		354	0.366
169.		355	1.254
170.		356	1.777
171.		359	0.251
172.		360	0.711
173.		361/1	0.251
174.		361/2	0.157
175.		362	0.366
176.		363	0.512
177.		364	0.439
178.		357	0.242
179.		366/2	0.209
180.		367	0.512
181.		369	0.073
182.		370	0.439
183.		372	0.366
184.		374	0.178
185.		375	0.167
186.		347	1.145
187.		348	0.334
188.		349	0.293
189.		357	0.157
190.		365	0.881
191.		380	0.125
192.		396	0.679
193.		358	0.240
194.		368/1	0.105
195.		368/2	0.020
196.		366/1	0.209

197.		371	0.534
198.		373	0.125
199.	Bardari	42 part	0.423
200.		43	0.115
201.		44	0.115
202.		41 Part	0.381
203.		40 Part	0.859
204.		45 Part	0.812
205.		46 Part	0.648
206.		51/2	0.091
207.		51/3	0.564
208.		50 Part	0.055
209.		49 Part	0.229
210.		16/2	0.292
211.		39 Part	0.050
212.		33 Part	0.410
213.		31 Part	0.191
214.		25 Part	0.835
215.		23	0.619
216.		24 /1/1	0.120
217.		24/1/2 Part	0.069
218.		24/2	0.241
219.		24/3	0.240
220.		24/4	0.240
221.		27 Part	1.312
222.		28 Part	0.291
223.		68 Part	0.837
224.		69 Part	0.096
225.		83 Part	0.986
226.		82 Part	0.168
227.		81 Part	0.130
228.		80/2	0.209
229.		84	0.272
230.		86	0.282
231.		87	0.366
232.		88	0.575
233.		89	0.240
234.		90	0.219
235.		91/1	0.164
236.		91/2	0.150
237.		92	0.031
238.		93/1	0.507
239.		93/2	0.507
240.		94	0.993
241.		95/1	0.554
242.		95/2	0.554
243.		96	1.285
244.		97	0.042
245.		98	0.678
246.		99	0.324

247.		100	0.230
248.		101	0.502
249.		102	1.024
250.		103	0.346
251.		104	0.376
252.	Total		169.577
253.	Grand Total after above deletion		944.145

[F. No. F.2 (6)/1/2000-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.